

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 1967/फाल्गुन 4, 1888
No. 4] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 1967/PHALGUNA 4, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF DEFENCE
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February 1967

S.R.O. 5-E.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 60 of the Defence of India Rules, 1962, the Central Government hereby authorises the carrying out of defence exercises without live firing from the date of publication of this notification in the Official Gazette to the 30th April, 1967 (Both days inclusive) in the areas specified in column 2 of the table below, namely:—

Name of the District	Name of the Tehsil
(1)	(2)
JHANSI	(The entire district)
GWALIOR	BHANDER PIKOR GIRD
MORENA	AMBAH MORENA JAURA SABAIGARH JEYPUR SHEOPUR
SHIVPURI	SHIVPURI POHARI PICHHOR KARERA KOLARAS

I	2
DATIA	SEWRA
CHATTARPUR	CHATTARPUR
	ALUNDI
	VIJAWAR
SAUGOR	SAUGOR
	TEHALI
	KHURAI
	BANDA
TIKAMGARH	TIKAMGARH
	JATARA
	NIWARI
BHIND	LAHAR
	BHIND
	GOHAD
	AHENGGAON

[File No. PC78975/MT4.]

R. J. REBELLO, Addl. Secy.